All e Technologies Ltd.

(Formerly: All e Technologies Pvt. Ltd.)
A 1, Sector 58, Noida 201301, India
Tel.: +91-120-3000 300 www.alletec.com

Tel.: +91-120-3000 300 www.alletec.com Regd. Office: UU-14, Vishakha Enclave Pitampura

Delhi-110034, India

CIN: U72200DL2000PLC106331



September 3, 2024

Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No. C-l G Block Bandra-Kurla Complex, Bandra(E) Mumbai -400051

SYMBOL: ALLETEC ISIN: INEOM2X01012

Subject: Newspaper Publication for Form PAS-1.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisements for Form PAS-1 that were published on Tuesday, September 03, 2024 in the Financial Express (English newspaper) and Jansatta (Hindi Newspaper), in connection with variation in the terms of the object referred to in the Initial Public Offering ("IPO") prospectus of the Company dated December 14 2022 (the "Prospectus"), for variation in the object of the issue and utilization of the IPO proceeds to be passed as a special resolution.

Kindly take the information on your record.

Thanking you,

Yours truly

For All e Technologies Limited

Kanak Gupta Company Secretary and Compliance Officer **FINANCIAL EXPRESS**

EYES ₹500 CRORE TOPLINE FOR THE MAN COMPANY

Emami plans to invest in new-age firms in 2-3 yrs

Plans to double portfolio of firms

VIVEAT SUSAN PINTO Mumbai, September 2

CONSUMER GOODS MAJOR Emami is looking to increase investment in new-age firms, with plans to double the portfolio of companies to 10 from five now in the next 2-3 years, vicechairman & MD Harsh Agarwal said in a conversation with FE on Monday.

Areas of interest will include premium personal care, pet care, health & wellness and nutrition, segments that Agarwal believes will grow in coming years. Some of Emami's current investments are in these areas, he said.

"These are emerging segments, which have high traction with millennials and Gen Z. We need to grow our presence in these areas. We are talking to more new-age brands and companies for possible investments in the future," Agarwal said.

The aspiration to grow its

digital-first portfolio is also tied with Emami's broader objective of achieving doubledigit topline growth in the cur-

rent fiscal and beyond.

HARSH AGARWAL,

VICE-CHAIRMAN & MD, EMAMI

EMERGING SEGMENTS

HAVE HIGH TRACTION

AND GEN Z. WE NEED

WITH MILLENNIALS

TO GROW OUR

PRESENCE IN

THESE AREAS

Emami had said in its FY24 annual report as well as its annual general meeting held in August that it was exploring both inorganic and organic opportunities to grow its business. The company closed FY24 with a revenue of ₹3,578.09 crore.

The company counts Navratna (₹750 cr+), Zandu (₹800 cr+) and Boroplus (₹550 cr+) amongst its key brands in its portfolio.

Agarwal's comments on Monday follow the acquisition of the remaining 49.6% stake in Helios Lifestyle, best known for its male grooming brand The Man Company, for ₹177.6 crore.

The all-cash deal was announced on Saturday. Emami already has a 50.4% stake in the firm. It first picked up a 30% stake in Helios Lifestyle in 2017, subsequently increasing it.

Agarwal says that he is keen

to see The Man Company touch an annual revenue run rate of ₹200 crore by this year-end. Helios Lifestyle closed FY24 with a turnover of ₹183 crore. In the next 2-3 years, Emami is aiming for a ₹500 crore topline for The Man Company.

The acquisition of 100% in Helios Lifestyle will be the second such deal after Brillare Science, where Emami, which had a 95.36% stake, picked up the balance 4.64% stake in March this year. The Ahmedabadbased firm (Brillare Science), which is into premium beauty, is now a wholly-owned subsidiary of Emami.

"The eventual plan will be to take complete control of our portfolio firms. But each will have its timelines, since we have varying stakes in the other three firms that we have invested in," Agarwal said. Emami has a 26% stake in

Axiom Ayurveda, which makes juice AloFruit; in Cannis Lupus, which is a pet care startup, it has a 47% stake, while in direct-to-consumer company Tru Native, it has a 19% stake respectively.

Openings for AI-ML talent soars: Report UBL targets 25% sales from premium beers

FE BUREAU

New Delhi, September 2

NARAYANAN V

Chennai, September 2

UNITED BREWERIES (UBL),

India's largest beer manufac-

turer, anticipates its premium

beer brands to contribute 25%

of its total sales volume within

the next 4-5 years, according to

a company official. "Currently,

premium beers make up 10%

of our portfolio, but their

growth is rapid. We expect this

segment to account for 20-

25% of our total business over

the next five years," Vivek

Gupta, CEO and managing

which is part of the global beer

giant Heineken, holds a 50%

share by volume in the Indian

beer market, which produces

shift in consumer preferences

towards premium mild beers

in India, driven by a growing

legal drinking age population,

rising number of earners, and

a desire for high-quality beer

experiences with moderate

the price. These are beers with

less than 5% alcohol content,

designed for those who prefer

moderate drinking experi-

"Premium isn't just about

consumption.

Schneider Electric targets faster growth via innovation

Gupta noted a significant

400 million cases annually.

The Bengaluru-based firm,

director of UBL, told FE.

to be improving in artificial intelligence, machine learning (AI-ML), pharma and FMCG. Hiring for roles in AI-ML pharma and FMCG has wit-

nessed a growth of over 14% in

THE HIRING CLIMATE seems

August, a new report showed on Monday. According to Naukri's JobSpeak Index for August, a measure of white-collar hiring, experienced a slight correction in August witnessing a 3%

decline. While the job market performed steadily in the first half of the month, a unique clustering of holidays in the latter half impacted the overall index. Senior professionals remain in high demand. Despite the overall dip, several sectors demonstrated

resilience and growth. AI-ML led the pack with a robust 14% year-on-year increase, followed **FMCG** 11%), pharma/biotech 9%, auto 7%, and oil & gas/power 5%. These

sectors stood out amidst an

otherwise subdued job market. While the overall IT sector showed a modest 1% year-onyear growth, AI-ML jobs continued their impressive run with a 14% increase.

ence and enjoy better social conversations," Gupta explained.

UBL currently boasts a portfolio of nearly 30 domestic and international beer brands, including Kingfisher Strong, Kingfisher Premium, Kingfisher Ultra, Heineken Original, Heineken Silver, and Amstel. The firm also produces and markets packaged drinking water, soda, and non-alcoholic

> VIVEK GUPTA, CEO & MD, UBL

PREMIUM BEERS MAKE UP 10% OF OUR PORTFOLIO. WE **EXPECT THEM TO ACCOUNT FOR 20-**25% OF OUR TOTAL



breweries across India and collaborates with contract manufacturers at 14 additional locations. Presently, UBL has manufacturing plants in Maharashtra, Rajasthan, and Telangana dedicated to producing Heineken's premium beer brands. The company recently announced that Heineken beers will now be brewed locally

beverages. UBL operates 21

Gupta said that UBL is enhancing its manufacturing capacity to produce premium beers at existing facilities instead of moving them from one state to another, which has tax implications. "For example, in Telangana, we have two fully operational breweries, so we're considering further investments there. Similarly, we are exploring opportunities in Uttar Pradesh, West Bengal, and Odisha," he added.

in Mysuru, Karnataka.

Two quarters ago, UBL announced a capital expenditure of ₹340 crore. While Gupta did not disclose any new investment plans, he said the company remains in investment mode, with discussions ongoing with various state governments regarding land allocation and policy support.

IIM A PGPX placements decline; 121 get offers

ABHINAY KUMAR Ahmedabad, September 2

STRUGGLING WITH THE headwinds of global slowdown and the excess hiring during the post-covid job boom, the placement process for the 18th batch of the One Year Post-Graduate Programme in Management for Executives (PGPX) at IIM Ahmedabad witnessed a dip in placements with 121 students out of a batch of 147 bagging jobs.

Around 105 firms from diverse sectors participated in the placements. More than 150 offers were made for the 126 students eligible and appearing for the placement process. Five students of the 2024 batch

remained unplaced while 21 students did not seek placement through the institute. Furthermore, 119 offers out of 121 offers made were for domestic roles while two offers were for international roles.

As per the IPRS report, the maximum earning potential for the lowest offer made to the participants is around ₹21 lakh while the maximum earning potential is around ₹55 lakh.The mean salary-head for the domestic offers is around ₹36.5 lakh and the median salary head is ₹35 lakh.

Apart from the domestic offers, the maximum earning potential for the two international offers is pegged at

RAGHAVENDRA KAMATH September 2, Mumbai FRENCH MULTINATIONAL


SCHNEIDER Electric aims a faster growth in digital power products segment with its new innovations. "We aim to grow faster than

the market and do this by bringing innovation into the picture. We are observing more adaptation of digital technology in infrastructure development," said Nikhil Pathak, vice president, power products and digital energy at Schneider.

Pathak said certain segments

such as cloud and service providers are seeing a huge expansion in the country due to the way data centres are being built."We see immense opportunity in India. Starting with web giants to Indian co-location providers, we work closely with customers to make their critical infrastructure more efficient, safe, and reliable. Every third data centre globally is powered by Schneider electric. So likewise, segment by segment, we see that there are opportunities," he added.

He said opportunities are there in terms of transportation, be it metro rail, airports, energy,



chemicals, power and commercial and industrial real estate." However, our focus is more on helping customers in digital transformation because we think today it is not an option if you want your infrastructure more

Cloud providers are seeing an expansion in India due to the way data centres are being built

Our focus is more on helping customers in digital transformation, said VP

efficient.reliable and safe," he said. It recently launched eight

new digital power products including product in air circuit

breaker with launch of Master-PacT MTZ Active; a new electrical panel which is BlokSeT Lean which saves metals for buildings which in turn helps in lower carbon footprint. BlokSeT lean is a low voltage switchboard for power distribution and helps in 15 to 18 % footprint reduction.

It also launched EcoStruxure Energy Hub, part of its EcoStruxure for small and midsize buildings, which is a subscription-based energy man-

empower building owners and facility personnel to manage their buildings' energy with ease and helps to meet energy regulations, achieve energy efficiency goals, and ensure business continuity in one or multiple buildings. "Blokset Lean uses fewer

agement software designed to

resources to manufacture. and it is becoming greener. This is also a green certified green premium product, Pathak said.

\$126,564.

PLATINUM. PLATINUM INDUSTRIES LIMITED

(Formerly Known as Platinum Industries Private Limited) CIN: U24299MH2020PLC341637 Contact No.: 022-49732818 | Email: compliance@platinumindustriesItd.com

Website: www.platinumindustriesltd.com Regd Address: Unit No. 841, 4" Floor, Solitaire Corporate Park - 8, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai - 400 093, Maharashtra

NOTICE OF THE 04™ ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

Notice is hereby given that the 04" Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Friday, 27th September, 2024 at 11.00 a.m. (IST) through video conference ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of AGM which will be circulated for conveying the AGM, without the physical presence of the members at a common venue, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020 2/2022 dated May 5, 2022, 10/2022 dated December 28, 2022, 09/2023 dated September 25, 2023 issued by Ministry of Corporate Affairs in this regard, from time to time, (collectively referred to as 'MCA Circulars') and SEBI Circulars No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 January 5, 2023 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") and in compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The electronic copies of Notice of the AGM, procedure and instructions for e-voting and the Annual Report for FY 2023-24 will be sent to those members whose email addresses are registered with the RTA i.e. Bigshare Services Private Limited, the Company or the Depository Participants as on 30th August, 2024. The Physical copy of the notice of the AGM along with the Annual Report for FY 2023-24 shall be sent to those members who request for the same at cs@platinumindustriesItd.com mentioning their Names, DF ID and Client ID.

Member(s) who have not registered their email address, are requested to register the same at the earliest:

- a. In respect of shares held in demat form with the Depository through their Depository Participants (Dps)
- b. In respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. Bigshare Services Private Limited, of the Company at cs@platinumindustriesltd.com and https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx

The Notice of the 04" AGM and the Annual Report for FY 2023-24 will be made available on the website of the Company at www.platinumindustriesltd.com and on the website of the BSE Limited at www.bseindia.com and on the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

The Company will provide the E-voting facility to its members whose name appears in the register of members as on Friday, 20" September, 2024 ("cutoff date") to exercise their rights to vote by electronic means both through remote e-voting or e-voting at the AGM through Bigshare Services Private Limited platform. The instructions on the process of e-voting, including the manner in which the members holding shares in physical form or who have not registered their email addresses can cast their votes through e-voting will be provided as part of the notice of the AGM.

Place: Mumbai

Date: 02rd September, 2024

For Platinum Industries Limited

Sd/-Krishna Dushyant Rana Managing Director (DIN: 02071912)

ALL E TECHNOLOGIES LIMITED

(Formerly: All e Technologies Pvt. Ltd.) CIN: U72200DL2000PLC106331

Tel.: +91-120-3000 300, www.alletec.com, Regd. Office: UU-14, Vishakha Enclave, Pitampura Delhi - 110034, India

Form PAS-1 [Pursuant to section 27(1) and rule7(2) of Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014]

prospectus or altering the objects for which the prospectus was issued PUBLIC NOTICE

Advertisement giving details of notice of special resolution for varying the terms of any contract referred to in the

Notice is hereby given that by resolution dated August 29, 2024, the Board has proposed to alter the object for which Initial Public Offer (IPO) Prospectus of the Company dated December 14, 2022 (the "Prospectus") issued in connection issue of 48,64,000 equity shares for cash at a price of ₹ 90 per equity share (including a share premium of ₹ 80 per equity share) aggregating to ₹ 4,377.60 Lacs by our company. (Net Proceeds from the Fresh Issue after deducting the Offer related expenses to be borne by our Company ("Net Proceeds") were Rs. 3,935.38 Lacs).

In pursuance of the provision of the Act, notice is given for approving the said proposition, a special resolution, is to be passed by the Shareholders at the ensuing 24th Annual General Meeting (AGM) of the Company to be held on Friday, September 27, 2024 at 4:00 PM (IST) through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means (VC). The detailed information of the aforesaid proposition and the instructions for participating at the 24th AGM including e-voting is given in the Notice of the AGM available on the website of the Company https://www.alletec.com/investors-alletec.

The details regarding such variation/alteration are as follows-Particulars of the objects proposed to be altered-

The Company needs to have additional funds available for any future inorganic growth initiatives. The funds originally allocated for this purpose are likely to be insufficient for any sizable and serious acquisition(s). The entire unutilized amount of Rs 3950.88 Lacs available from the proceeds of IPO as on 31.03.2024 are as under:

(Amount in INR Lacs) Amount proposed Original objects Balance Objects of the issue grouped for utilised as unutilized proposed to be to be utilised altered/added each object on 31.03.2024 after altering amount the object of IPO 2500 Acquisitions of Businesses Expansion of Business 2500 in similar or complementary Acquisitions of Businesses in 1000 -no change -1000 similar or complementary areas 435.38 435.38 General Corporate Purposes Acquisitions of Businesses in similar or complementary 442.22 426.72 Offer related Expenses for 15.50 Acquisitions of Businesses in similar or complementary 426.72 4377.60 3950.88

The Company did not see utilising the aforesaid unutilised amount and therefor wants to utilise the entire unutilized amount of Rs 3950.88 Lacs available from the proceeds of IPO, Rs. 2950.38 Lacs, of which were earlier reserved for Expansion of Business, General Corporate Purposes and Offer related Expenses, for the purpose of "Acquisitions of Businesses in similar or complementary areas". Till such time that such a need arises for any specific acquisition(s), the funds may be used for their originally stated purpose.

2. Particulars of the proposed variation/alteration-

The Company intends to vary the terms of the objects, by way of utilising the unutilised amount of Rs. 3950.38 Lacs, out of which Rs. 2950.38 Lacs, of which were earlier reserved for Expansion of Business, General Corporate Purposes and Offer related Expenses, for the purpose of "Acquisitions of Businesses in similar or complementary areas".

3. Reasons/justification for the variation/alteration -

The Company management wants to have additional funds available for any future inorganic growth initiatives. The funds originally allocated for this purpose are likely to be insufficient for any sizable and serious acquisition(s). Hence, as and when needed for an identified acquisition, the company should be able to utilize for this purpose the funds originally earmarked for

4. Effect of the proposed variation/alteration on the financial position including earnings and cash flow of the Company-

After the above utilization of the IPO proceeds, the consolidated earnings, margins and cashflow of the Company are expected to improve in the long term either directly or through its subsidiaries.

5. Risk factors pertaining to the new Objects-

September 02, 2024

Ohio, U.S.A.

We propose to utilize unutilized amount of Rs. 3950.88 Lacs towards the acquisition of businesses in similar or complementary areas for which the targets have not yet been identified. Acquisitions always carry a risk of not delivering the intended outcome for the business.

Names of Directors who voted against the proposed variation/alteration-

None of the Directors of the Company have voted against the proposed variation.

Any interested person may obtain the copy of the special resolution along with the explanatory statement free of charge at the registered office of the company or at the office of its Company Secretary Ms. Kanak Gupta at kagupta@alletec.com or visit the website of the Company https://www.alletec.com/investors-alletec for a copy of the same.

By order of the Board of Directors All E Technologies Limited Ajay Mian **Managing Director** DIN No. 00170270

IZMO Limited

CIN-L72200KA1995PLC018734

Regd. Off: #177/2C, Bilekahalli Industrial Area, Bannerghatta Road, Bengaluru-560 076. E-Mail-info@izmoltd.com www.izmoltd.com

NOTICE OF THE 29TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 29th (Twenty Nineth) Annual General Meeting (the "AGM" or the "Meeting") of the members of Izmo Limited (the "Company") will be held on Thursday, September 26th, 2024 at 12:30 P.M (IST) through Video Conferencing ("VC") or other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice convening the 29th Annual General Meeting (the "Notice"). The Ministry of Corporate Affairs (the "MCA") vide its General Circulars No. 14/2020, No. 17/2020, No. 20/2020, No. 02/2021 and No. 2/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, May 5, 2022, 13th May 2022, December 28, 2022 read with General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 respectively (hereinafter, collectively referred as the "MCA Circulars") read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/ P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2022/0063 dated 13th May, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD/-2/P/CIR/2023/4 dated January 5th, 2023 and read with Circular No. SEBI/HO/ CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October 2023 (hereinafter, collectively referred as the "SEBI Circulars"), has granted Companies to conduct their Annual General Meetings through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"), and relaxation in respect of sending physical copies of the Annual Report to shareholders and requirement of proxy for general meetings held through electronic mode in Compliance with the said circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 (as amended) (the "Act") and Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) (the "Listing Regulations").

In accordance with the said Circulars, the Notice convening the 29th AGM along with the Annual Report included Audited Financial Statements for the financial year ended March 31, 2024 has been sent only through e-mails to those members whose e-mail addresses are registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent (the "RTA") i.e. M/s. Cameo Corporate Services Limited or the Depository Participant(s) and holding equity shares of the Company as on Friday, August, 30, 2024. The Notice and the Annual Report are also available on the websites of the Company i.e. www.izmoltd.com and websites of the Stock Exchanges where the equity shares of the company are listed i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com. The Notice shall also be available on the e-voting website of the agency engaged for providing e-Voting facility i.e., Central Depositories Services ("India") Limited ("CDSL") at www.cdslindia.com

Members are requested to refer newspaper advertisement dated August 26, 2024 issued by the Company and published in "Financial Express" (English) and "Vishwavani" (Kannada) for further details pertaining to the meeting. The said advertisement is also available on the websites of the Company and of the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Company are listed.

Members are also informed hereby that:

Place: Bengaluru

Date: 02.09.2024

New Delhi

Pursuant to Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide e-Voting facilities through CDSL to its Members, in respect of the businesses to be transacted at the 29th AGM. The manner and instructions to cast votes through remote e-Voting as well as through e-voting system during the meeting have been provided along with the Notice.

The businesses set out in the Notice to the 29th Annual General Meeting shall be transacted through e-Voting only. The members, whose names appear in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Thursday, September 19, 2024 being the cut-off date, shall be entitled to avail the e-Voting facility. Once vote(s) on Resolution(s) are cast by any member the same cannot be changed subsequently. The remote e-Voting will commence on Monday, September 23, 2024 (9:00A.M. IST) and will end on Wednesday, September 25, 2024 (5:00 P.M. IST). Thereafter the module of remote e-Voting shall be disabled by CDSL for remote e-voting. A person who is not a member as on the cut-off date, i.e. Thursday, September 19, 2024, should treat the Notice for information purposes only.

Members attending the AGM, who have not cast their votes by remote e-Voting shall be eligible to exercise their voting rights during the AGM through e-Voting system via www.cdslindia.com Members who have exercised their voting rights by remote e-Voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC or OAVM but shall not be entitled to cast their votes again during the AGM.

Notice of the 29th AGM and holds shares as on the cut-off date i.e. September 19, 2024 may obtain the login Id and password for e-Voting, by sending a request to CDSL at helpdesk.evoting@cdslindia.com or to the Company at company. secretary@izmoltd.com.

Any person, who acquires equity shares of the Company and becomes a member after dispatch of the

Members who are already registered with CDSL for remote e-Voting can use their existing User Id and Password for e-Voting.

All documents referred to in the Notice and the Explanatory Statement annexed thereto shall be made available for inspection by the members of the Company, without payment of fees, upto and including the date of 29th AGM. Members desirous of inspecting the same may send their request company.secretary@izmoltd.com from their registered e-mail addresses mentioning their names and folio numbers/demataccount numbers.

In case of any gueries/grievances relating to e-Voting, members may refer to Frequently Asked Question (FAQs) on e-Voting (For Shareholders) pdf and manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@ cdslindia.com or contact Mr. Srikanth Reddy, Assistant Manager, Central Depository Services (India) Limited at 022-23058738 and 022-23058542/43.

> sd/-Sonal Jaju Company Secretary & Compliance officer

For IZMO Limited

financialexp.epapr.in



पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग_ू गेड, ईजी्एल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बैंगलोर-560071 शाखा कार्यालयः 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्य समाज रोड. करोल बाग. दिल्ली-110005

ई-नीलामी सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9 के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के अंतर्गत ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री हेत सार्वजनिक सूचना

जना रमॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधीहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित खाते में बंधक संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी) ''जैसा है जहां है आधार'' और ''जै है यही है'' के आधार पर यहां नीचे निर्धारित तिथि पर आयोजित की जाएगी।

	क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	मूल कर्जदार/सह-कर्जदार/ गारंटर के नाम	13-2 सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि	31.08.2024 तक वर्तमान बकाया शेष	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि तथा समय	आरक्षित मूल्य रु. में	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. में	ई-नीलामी की तिथि तथा समय	बोली जमा करने की अंतिम तिथि, समय तथा स्थान
	1	47939420001370	 श्री अजय कुमार, पुत्र श्री राम मूर्ति (आवेदक), 	11.10.2023	12.06.2024	रु. 25,14,870.14 (रुपये पच्चीस लाख चौदह हजार आठ सौ सत्तर एवं चौदह	18.09.2024 09:30 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे	रु. 10,34,000/- (रुपये दस लाख चाँतीस	रु. 1,03,400/- (रुपये एक लाख तीन हजार चार सौ	24.09.2024 को 11:00 बजे पूर्वा.	23.09.2024 को 05:00 बजे अप. से पूर्व जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्य
			 श्रीमती मुन्नी देवी, पत्नी श्री राम मूर्ति (सह-आवेदक) 			पैसे मात्र)	अप.	हजार मात्र)	मात्र)		समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005
- 1	प्रतिभत संपतियों का विवरण: फ्लैट नंवर टीएफ-1. (तीसरी मंजिल) कवर्ड एरिया 55 वर्ग गज. एमआईजी. फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट नंबर 128. खसरा नंबर 299. गली नंबर 12-डी-4. अशोक वाटिका, गांव पतौंडा. परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद में स्थित है। श्री अ									ाला गाजियाबाद में स्थित है। श्री अजय कमार, पत्र	

श्री राम मूर्ति के स्वामित्व में है। सीमाः पूर्वः अन्य की संपत्ति, पश्चिमः 15 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः अन्य का प्लॉट, दक्षिणः अन्य की संपत्ति।

 मोहम्मद. समीर, पुत्र श्री मुस्ताक (आवेदक), 2) श्रीमती गुलजाबी खातून, पत्नी मोहम्मद समीर . 18,34,979.00 (रुपये अठारह लाख चौंतीस हजार नौ सौ रु. 92,900/-23.09.2024 को 05:00 बजे अप. से पूर्व जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, 18.09.2024 24.09.2024 09:30 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे (रुपयबानबे हजार नौ सौ मात्र) उन्यासी मात्र) 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-11000: (सह-आवेदक)

ते<mark>भूत संपत्तियों का विवरणः</mark> सुदेश विहार, गांव लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद में खसरा नंबर 1290 में से आवासीय फ्लैट नंबर एसएफ-2, द्वितीय तल (एमआईजी फ्रांट साइड), प्लॉट नंबर 28, क्षेत्रफल 46 वर्ग मीटर। मालिक मोहम्मद समीर, पुत्र श्री मुस्ताक। सीमाः पूर्वः प्लॉट नंबर 29 क्षमः प्लॉट नंबर 27, उत्तरः 15 फीट चौड़ी सङ्क, दक्षिणः संपत्ति का शेष भाग।

संपत्तियों को ''जैसा है जहां है आधार'' और ''जो है यही है'' के आधार पर बेजा जा रहा है और ई-नीलामी 'ऑन लाइन' आयोजित की जाएगी। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स 4क्लोजर के माध्यम से वेब पोर्टल https://bankauctions.in तथा www.foreclosureindia.com पर आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी और ई-नीलामी पर विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता मैसर्स 4क्लोजर; श्री उत्कर्ष आदेश संपर्क नंबर: 9515160064, ईमेल आईडी: info@bankauctions.in/adesh@bankauctions.in पर संपर्क कर सकते हैं।

ई-नीलामी कार्यवाही में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकारी श्री तुंग कौशिक (मो. नं. 9873662400), श्री राकेश शर्मा (मो. 7230070463), रंजन नाइक (मो. नं. 6362951653) से संपर्क करें। प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार, संपत्तियों पर कोई ऋणभार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के स्वामित्व, हित के सबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। कोई भी सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। यह बंधक संपत्तियों के लिए निर्धारित ई-नीलामी के बारे में उपरोक्त नामित कर्जदारी गारंटर/बंधककर्ताओं के लिए भी एक सूचना है। कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता को नीलामी की तारीख से पहले अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भृगतान करने के लिए सुचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति बेच दी जाएगी और शेष बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसुल की

दिनांकः 03.09.2024, स्थानः दिल्ली रा.रा.क्षे.

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

WOODSVILLA LIMITED

CIN: L55101DL1994PLC030472 Regd. Office: E-4 2ND Floor Defence Colony New Delhi - 110024 Email Id: woodsvillaresort@gmail.com; Tel No. : +011-41552060 Website: https://www.woodsvilla.in

Public Notice – 36th Annual General Meeting

This is to inform that, the 36th Annual General Meeting ("AGM") of Woodsvilla Limited ("the Company") will be held on Sunday, 29th September, 2024 at 05:00 p.m. IST, through video conferencing (VC)/ other audio visual means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with latest circular date 09/2023 dated 25th December, 2023 other circulars Issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI).

Members may further note that in pursuance of above stated circulars and in furtherance of Go-Green initiative of the government, the Notice of the 36th AGM and Annual Report for the financial year 2023-24, will be sent through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant/ Registrar and Transfer Agent ("RTA") . The members attending the meeting through VC or OAVM shall be counted for the purpose of quorum under section 103 of the Act. The Company is also providing evoting and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices. Members may note that the detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the AGM is also mentioned in the notice of AGM.

The e-copy of the notice of the 36th AGM along with the Annual Report for the FY 2023-24 of the Company will be available on the website of the Company at www.woodsvilla.in, also be available on the website of the BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of Mas Service Limited at www.masserv.com, in due course of time. The Company shall send a physical copy of the AGM Notice and Annual Report to those Members who request for the same at Woodsvillaresort@gmail.com mentioning their Folio No./DP ID and Client ID.

The Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only detailed instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of 36th AGM Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the AGM of the Company in person.

In case the email address is not registered with the Company / Depository Participant / RTA, please follow the process of registering the same as mentioned below:

Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS **Physical**

Services Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN(Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.

Holding Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS Services Limited, T-34 2nd floor, Okhla industrial area phaseii, New Delhi 10020 alongwith letter mentioning folio no. If not registered already.)

Please contact your Depositary Participant (DP) and register your Demat email address as per the process advised by DP.

Holding Please also update your bank detail with your DP for dividend payment

by NACH if declare by company The above information is being issued for the information and benefit of all the

members of the Company and is in compliance with the MCA Circular(s) and the SEBI Circular. For Woodsvilla Limited Sd/

Date: 02/09/2024 Place: Delhi

Vineeta Agrawal **Company Secretary**

DU Digital

डीयूडिजिटल ग्लोबल लिमिटेड सीआईएनः L74110DL2007PLC171939 **पंजीकृत कार्यातवः** सी–४, एसडीए कम्युनिटी सेंटर, होज खास, नई दिल्ली–110016 वेबसाइटः www.dudigitalglobal.com | **इंगेल**ः cs@dudigitalglobal.com | **फोन न0.** 011 40450533

17वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग जानकारी और कट-ऑफ तिथि की सूचना तदद्वारा **सृचित** किया जाता है कि एजीएम की सूचना में निर्घारित सामान्य एवं विशेष कामकाज नेष्पादन के लिए डीयुडिजिटल ग्लोबल लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों की **17वीं वार्षिक आम बै** ("एजीएम") बृहस्पतिवार, 26 सितम्बर, 2024 को दोपहर 12.30 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य

ऑडियो विडियो माध्यमों ("वीसी/ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी। एजीएम का स्थान कप

का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2021 रुप्तार २०१४ न जाराच (रूपकार) ने अपने प्राणित वारच से 1. मि/२०२० विनाक न असरे, 2020 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 202 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022, 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 और नवीनतम 9/2023 दिनांक 2! सितम्बर, 2023 तथा भारतीय प्रतिमूति और विनिमय बोर्ड ("सेवी") ने अपने परिपन्न सं. सेवी/एवओ/ सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई, 2020 और सेबी / एचओ / सीएफडी सारमञ्जू (सारमञ्जू) (स्वारमञ्जू) (सारमञ्जू) न्यू, 2020 (में स्वार्य) स्वार्य (स्वार्य) (सारमञ्जू) सीएमडी/ सीजोडी-2/पी/ सीआईआर/पी/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 एवं नवीनतम सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/

सीआईआर / 2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 (यहां के बाद "मिरिज्ज" के रूप में सदर्शित) के मध्य से कंपनियों को आम स्थल पर सदस्यों की मौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त करते हुए विडिय कॉन्फ्रेंसिंग, अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ("वीसी/ओएबीएम") के द्वारा एजीएम आयोजित करने क् अनुमृति दी है। तदनसार कंपनी की 17वीं एजीएम वीसी /ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023—2024 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की पूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भंज दी गई ह जिनक इ—मल पर कंपनी/रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") अर्थात् बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड/डिपॉजिटर्र पार्टिसिपेट्स ("डीपी) के साथ पंजीकृत हैं। यदस्यगण कृपया नोट करें कि यह कंपनी की वेबसाइट् www.dudigitalglobal.com पर भी उपलब्ध होंगे और इसे नेशानल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **"एनएसई")** की वेबसाइट www.nseindia.com और कंपनी के आरटीए की वेबसाइट www.bigshareonline.co (२१९२६) ज प्रचाहर www.nseminaco.mion(२०५१) के जाराहर के प्रचाहर www.nsemineco. से भी प्राप्त विजया जा सकता है। वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूबना का इलेक्ट्रॉनिक डिस्पैंग् **सोमवार, 2 सितम्बर, 2024** को पूरा कर लिया गया है।

सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल एवं माग ले सकते हैं वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में माग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहर कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। तदनुसार, कृपया घ्यान दें कि कंपनी की 17वीं एजीएम ग् व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और भाग लेने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

अधिनियम की घारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 जैसा वि जावानपुर के बात 1950 के ताल जाता है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया है और सी सूचीया विनियम के विनियमन 44 तथा मारतीय कंपनी सचिव संस्थान **("बाईसीएसबाई")** द्वारा आग बैठक पर जार्र सविवीय मानक ("एसएस-2") के अनुपालन में सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्ताव पर रिमोट ई-वोटिंग सुविद्या (एजीएम से पहले) और ई-वोटिंग सुविद्या (एजीएम में) के माध्यम सं इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविद्या प्रदान की जाएगी। वोट डालने की सुविद्या एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान की जाएगी जो हमारे आरटीए अर्थात् विगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदा की जाएगी। एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी जो वीसी/ओएवीएम माध्यम से एलाएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से एसतावों पर अपना वोट नहीं डाला है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे मी वीसी/ओएबीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन वे एजीएम में दोबारा वोट करने के पात्र नहीं होंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीए आयोजित करने वाले सूचना में प्रदान की गई है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को प्रातः 09:00 बजे (आईएसटी) प्रारंभ होगी औ नारा जिला कार्यात, अध्यात कार्यात, उन्हाराज्य, उट्टर का आंध्र 10,000 वर्ण (वाहरूपाट) आरा बार, 25 सितंबर, 2024 को सार्य 05:00 बर्ज (बाईएसटी) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान थे अर्थात् बृहस्पतिवार, 19 सितंबर, 2024 को शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। उसके बाद मतदान के लिए आरटीए द्वारा ई—वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा ई—वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कट—ऑफ तारीख **बृहस्पतिवार, 19 सितंबर, 2024** होगी। सदस्यों का मतदान अधिकार कट—ऑफ तिथि को कंपनी की चुकता इंक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर अधिग्रहित करता है और एजीएम की सचना भेजने के बाद कंपनी व करायु मा जाति जो जरना कि राज जिल्हा कर आहे हैं। स्ट्रिस्ट को स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् **बृहस्पतियार्, 19 सितंबर, 2024** को शेयर रखता है तो यदि वा सदस्य पहले से ही ई—बोटिंग के लिए आरटीए/डीपी के साथ पंजीकृत है तो वह अपना वोट देने के लिए अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। सदस्यों से अनुरोघ है कि वे डीपी की सलाह के अनुसार प्रक्रिया को अपनाकर संबंधित डीपी के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट करें। अधिनियम की धारा 91 और उसके तहत बनाए गए नियमों, समय-समय पर संशोधित के अनुसार, कंपर्न के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 से बृहस्पतिवार, 26 सितंबर 2024 (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

यदि आपके पास वर्चुअल मीटिंग के संबंध में कोई प्रश्न है, तो आप https://ivote.bigshareonline.com वाद आपक पास चुलत मादिन के सबय न कोई श्रेट्स है, तो जाप गाफिआ-Movel-Jughalaevillieiccoll प उपनिबंध अक्सर पूछे जाने ताले प्रश्न **("एफएवस्")** को देख सकते हैं या हमारे आरटीए को ई-मैर्स ivote@bigshareonline.com पर मेल कर सकते हैं या 1800 22 54 22, 022-62638338 पर कॉल कर सकते हैं

स्थानः नई दिल्ली

तिथिः 03.09.2024

बोर्ड के आदेशानुसा डीयूडिजिटल ग्लोबल लिमिटेर

हस्ता/ ललित चावव कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिका M. No. F7825

DIGISPICE

डिजिस्पाइस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः जेए-122, पहली मंजिल, डीएलएफ टॉवर ए, जसोला, नई दिल्ली-110025 सीआईएन: L72900DL1986PLC330369

टेलीफोनः 011-41251965, ईमेलः complianceofficer@digispice.com; वेबसाइटः www.digispice.com

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि डिज़िस्पाइस टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड (कम्पनी) की 36वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') अथवा अन्य ऑडियो–विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से शनिवार, 28 सितम्बर, 2024 को 3:00 बजे अपराह, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र 09/2023 दिनांकित 25 सितम्बर, 2023 के साथ पठित परिपत्र(ओं) दिनांकित 5 मई, 2020, 13 अप्रैल, 2020 एवं 8 अप्रैल, 2020 तथा सेबी द्वारा जारी परिपत्र दिनांकित ७ अक्टूबर, २०२३ के साथ पठित मास्टर परिपत्र दिनांकित ११ जुलाई, २०२३ (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से 'परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में, कम्पनी के शेयरधारकों को भेजी जाने वाली एजीएम की सचना में निर्धारित व्यवसायों के सम्पादन हेत् किया जाएगा।

परिपत्रों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में:

- कम्पनी की 36वीं एजीएम एक सामान्य स्थान पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी;
- (बी) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के प्रयोजन हेतु संगणित किया जाएगा;
- (सी) वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक रिपोर्ट के साथ 36वीं एजीएम की सूचना केवल उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजी जाएंगी, जिनका ईमेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('डीपी') के साथ पंजीकृत है; तथा
- (डी) उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट, <u>www.digispice.com</u> तथा स्टॉक एक्सचेंजों, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है, की वेबसाइट(ओं) अर्थात् <u>www.bseindia.com</u> एवं <u>www.nseindia.com</u> पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

कम्पनी अपने सभी शेयरधारकों को एजीएम की सूचना में निर्धारित किए जाने वाले सभी प्रस्तावों पर वोट डालने हेतु रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रही है। बैठक में भाग लेने और रिमोट ई–वोटिंग तथा ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के विस्तृत निर्देश / प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान किए जाएंगे।

यह सुनिश्चित करने हेतु कि दस्तावेज उन्हें उनके सर्व-प्रधान ईमेल पते पर पहुंच जाएं, सदस्यों से अनुरोध है कि यदि शेयर डीमैट मोड में प्रतिरक्षित हैं तो वे अपने डीपी के साथ अपनी ई–मेल आईडी अपडेट करें; और यदि शेयर भौतिक मोड में प्रतिरक्षित हैं, तो मास सर्विसेज लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') या कम्पनी के साथ विधिवत भरे हुए फॉर्म आईएसआर-1 द्वारा अपडेट करें। सदस्य अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी से कम्पनी को अनुरोध करने पर एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट भौतिक तौर पर प्राप्त करने हेतु अधिकृत हैं।

सेबी ने 7 मई, 2024 के परिपत्र के माध्यम से भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा आरटीए को पैन, केवाईसी, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक विवरण और नमुना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। अतः भौतिक रूप में शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे फॉर्म आईएसआर-1 सिहत उपरोक्त दस्तावेज आरटीए को टी-34, दूसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज II, नई दिल्ली—110020 पर उपलब्ध कराएं। सदस्य उपरोक्त सेबी परिपत्रों में उल्लिखित लागू फॉर्म कम्पनी की वेबसाइट या आरटीए की वेबसाइट (www.masserv.com) से डाउनलोड कर सकते हैं।

कृते डिज़िस्पाइस टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड

तिथिः 2 सितम्बर, 2024 स्थानः नोएडा

हस्ताक्षर रूचि मेहता

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

जीआरएम ओवरसीज

वार्षिक आम बैठक और बुक क्लोजर की सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 30वीं वार्षिक आम बैठक ''(एजीएम)''एशनिवार, 28 सितंबर, 2024 को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित कारोबार के संचालन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में आयोजित की जानी है, जिसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्रों के साथ पढ़ा गया है। दिनांक 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 05 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 08 दिसंबर 2021, 14 दिसंबर 2021, 05 मई, 2022, 28 दिसंबर, 2022, 25 सितंबर, 2023 (सामृहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) और सेबी द्वारा 12 मई 2020, 15 जनवरी, 2021, 13 मई, 2022, 05 जनवरी, 2023 और 07 अक्टूबर, 2023 को जारी परिपत्र (सामूहिक रूप से "सेबी परिपत्र"के रूप में संदर्भित) के अनुसार, सदस्यों की एक सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित किया जाएगा।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनकी ई-मेल आईडी पहले से ही कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.grmrice.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी, जहां कंपनी के शेयर सचीबद्ध हैं और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें 30वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से रविवार, 22 सितंबर, 2024 से शनिवार, 28 सितंबर, 2024 तक (दोनों दिन सिमिलित)

यदि आपकी ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत है, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण के साथ एजीएम की सूचना आपके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजी जाएगी। यदि आपने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

भौतिक कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मास सर्विसेज लिमिटेड को info@masserv.com पर एक अनुरोध भेजें, जिसमें फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित होल्डिंग स्कैन की गई प्रति) ईमेल पता पंजीकृत करने के लिए प्रदान करें। कृपया अपना बैंक विवरण मूल रद्द किए गए चेक के साथ हमारे आरटीए (यानी एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, टी -34, दूसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण -2, नई दिल्ली 100020) को फोलियो नंबर का उल्लेख करते हुए पत्र के साथ भेजें यदि पहले से पंजीकृत नहीं है।)

कृपया अपने डिपोजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकत करें। होल्डिंग यदि कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है तो कृपया एनएसीएच द्वारा लाभांश भुगतान के लिए अपने डीपी

एजीएम की सूचना में इस बारे में निर्देश होंगे कि किस तरह से शेयरधारक एजीएम में शामिल हो सकते हैं और रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

के साथ अपना बैंक विवरण भी अपडेट करें।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट सदस्यों को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर लागू कानूनों के अनुसार नियत समय पर भेजी जाएगी। किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य आरटीए को info@masserv.com या कंपनी को cs@grmrice.com पर ईमेल

जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड के लिए

स्थानः दिल्ली दिनांक: 02.09.2024

भेज सकते हैं।

सचिन नारंग कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी फ्यूज़न फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्वतः पयूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड) सीआईएनः L65100DL1994PLC061287

पंजीकृत कार्यालयः एच-1, सी ब्लॉक, सामुदायिक केंद्र,

नारायणा विहार, नई दिल्ली–110028 **कॉर्पोरेट कार्यालयः** प्लॉट नंबर 86, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर 32, गुरुग्राम–122001 हरियाणा

ईमेल आईडीः companysecretary@fusionfin.com

वेबसाइटः <u>www.fusionfin.com</u> फोनः 0124—6910500 / 6910600

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली 30वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में जानकारी

- एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु **पयूज़न फाइनेंस लिमिटेड** (पूर्वतः पयूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड) ('कम्पनी') के सदस्यों की 30वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2024 को पूर्वाह 11.00 बजे (आईएसटी), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से, कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांकित 25 सितम्बर, 2023 ('एमसीए परिपत्र') तथा सेबी द्वारा जारी SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांकित 7 अक्टूबर, 2023 एवं इस संबंध में जारी अन्य संबंधित परिपत्रों (इसके पश्चात सामहिक रूप से 'परिपत्र' के रूप में संबोधित) के अनपालन में. एजीएम की सचना में निर्धारित व्यवसाय के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। बैठक का स्थान एच-1, सी ब्लॉक, सामुदायिक केंद्र, नारायणा विहार, नई दिल्ली-110028 स्थित कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, 30वीं एजीएम की सूचना सहित वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु वार्षिक रिपोर्ट केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा उचित समय पर भेजी जाएगी, जिनकी ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('डीपी') / कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ('आरटीए') के साथ पंजीकृत हैं। यह कम्पनी की वेबसाइट www.fusionfin.com, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com तथा लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) की वेबसाइट <u>www.instavote.linkintime.co.in</u> पर भी उपलब्ध होंगे।
- अधिनियम की धारा 108 एवं कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 यथा संषोधित तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है। सदस्यों के मतदान का अधिकार शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024 ('कट-ऑफ तिथि') को कम्पनी की चुकता इक्विटी शेयर पूँजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।
- 4. वह व्यक्ति जिसका नाम कट—ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभभोगी स्वामियों के रिजस्टर में दर्ज हो, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने हेतु अधिकृत होंगे। रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 24 सितम्बर, 2024 को पूर्वाह 9.00 बजे (आईएसटी) आरम्भ होगी तथा बृहस्पतिवार, 26 सितम्बर, 2024 को अपराह 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं तथा इसके पश्चात् रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल की अनुमित नहीं दी जाएगी। वे सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे तथा उन्होंने रिमोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम
- से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है एवं अन्यथा उन्हें ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, वे एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, परन्तु वे पुनः वोट डालने हेतु अधिकृत नहीं होंगे।
- भौतिक तौर पर शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सामान्य परिपत्र संख्याः SEBI/HO/ MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37, दिनांकित 16 मार्च, 2023 एवं अन्य लागू परिपत्रों के अनुसार, भौतिक शेयरों के सभी धारक मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया पाइवेट लिमिटेड के साथ सहायक दस्तावेजों के साथ अपेक्षित फॉर्म आईएसआर-1 जमा करके ई-मेल आईडी के विवरण सहित अपने संपर्क विवरण अपडेट / पंजीकृत कर सकते हैं तथा डीमैटेरियलाइज्ड तौर पर शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते एवं मोबाइल नंबर को अपने सम्बद्ध डीपी के साथ पंजीकृत/अपडेट करें।
- सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में विस्तृत रूप से वर्णित सभी निर्देशों को एवं विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ें।
- कोई भी व्यक्ति, जो 30वीं एजीएम की सचना एवं वार्षिक रिपोर्ट के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषण के पश्चात शेयर अधिगृहित करता है और कम्पनी का सदस्य बन जाता है एवं कट-ऑफ तिथि तक शेयर प्रतिरक्षित रखता है, ईमेल आईडी: rajiv.ranjan@linkintime.co.in अथवा delhi@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि वे रिमोट ई-वोटिंग हेतु डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स/आरटीए के साथ पहले से ही पंजीकृत हैं, तो वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया <u>www.instavote.linkintime.co.in</u> के सहायता अनुभाग पर उपलब्ध सदस्यों हेतु फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन (एफएक्यू) एवं ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल संदर्भित करें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के मामले में, कृपया श्री राजीव रंजन, सहायक उपाध्यक्ष – ई–वोटिंग, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी–101, प्रथम तल, 247 पार्क, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई—400083, ईमेलः <u>rajiv.ranjan@linkintime.co.in</u>, फोनः +91 22 - 49186000 से संपर्क करें।

कृते पयूज़न फाइनेंस लिमिटेड (पूर्वतः पयूज़न माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड) हस्ताक्षर / दीपक मदान

दिनांकः 2 सितम्बर 2024 स्थानः गुरूग्राम

कम्पनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी सदस्यता संख्या A24811



ALL E TECHNOLOGIES LIMITED (Formerly: All e Technologies Pvt. Ltd.)

CIN: U72200DL2000PLC106331

Tel.: +91-120-3000 300, www.alletec.com, Regd. Office: UU-14, Vishakha Enclave, Pitampura Delhi - 110034, India

[Pursuant to section 27(1) and rule7(2) of Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014] Advertisement giving details of notice of special resolution for varying the terms of any contract referred to in the prospectus or altering the objects for which the prospectus was issued **PUBLIC NOTICE**

Notice is hereby given that by resolution dated August 29, 2024, the Board has proposed to alter the object for which Initial Public Offer (IPO) Prospectus of the Company dated December 14, 2022 (the "Prospectus") issued in connection issue of 48,64,000 equity shares for cash at a price of ₹ 90 per equity share (including a share premium of ₹ 80 per equity share) aggregating to ₹ 4,377.60 Lacs by our company. (Net Proceeds from the Fresh Issue after deducting the Offer related expenses to be borne by ou Company ("Net Proceeds") were Rs. 3,935.38 Lacs).

In pursuance of the provision of the Act, notice is given for approving the said proposition, a special resolution, is to be passed by the Shareholders at the ensuing 24th Annual General Meeting (AGM) of the Company to be held on Friday, September 27, 2024 at 4:00 PM (IST) through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means (VC). The detailed information of the aforesaid proposition and the instructions for participating at the 24th AGM including e-voting is given in the Notice of the AGM available on the website of the Company https://www.alletec.com/investors-alletec.

The details regarding such variation/alteration are as follows-

I. Particulars of the objects proposed to be altered-

The Company needs to have additional funds available for any future inorganic growth initiatives. The funds originally allocated for this purpose are likely to be insufficient for any sizable and serious acquisition(s). The entire unutilized amount of Rs. 3950.88 Lacs available from the proceeds of IPO as on 31.03.2024 are as under:

(Amount in INR Lacs)

(Amount in thin L									
Original objects of the issue	Amount grouped for each object	Amount utilised as on 31.03.2024	Balance unutilized amount	Objects proposed to be altered/ added	Amount proposed to be utilised after altering the object of IPO				
Expansion of Business	2500	0	2500	Acquisitions of Businesses in similar or complementary areas	2500				
Acquisitions of Businesses in similar or complementary areas	1000	0	1000	-no change -	1000				
General Corporate Purposes	435.38	0	435.38	Acquisitions of Businesses in similar or complementary areas	435.38				
Offer related Expenses for fresh Issue	442.22	426.72	15.50	Acquisitions of Businesses in similar or complementary areas.	15.50				
Total	4377.60	426.72	3950.88		3950.88				

The Company did not see utilising the aforesaid unutilised amount and therefor wants to utilise the entire unutilized amount of Rs. 3950.88 Lacs available from the proceeds of IPO, Rs. 2950.38 Lacs. of which were earlier reserved for Expansion of Business, General Corporate Purposes and Offer related Expenses, for the purpose of "Acquisitions of Businesses in similar or complementary areas". Till such time that such a need arises for any specific acquisition(s), the funds may be used for their

2. Particulars of the proposed variation/alteration-

The Company intends to vary the terms of the objects, by way of utilising the unutilised amount of Rs. 3950.38 Lacs, out of which Rs. 2950.38 Lacs, of which were earlier reserved for Expansion of Business, General Corporate Purposes and Offer related Expenses, for the purpose of "Acquisitions of Businesses in similar or complementary areas".

Reasons/justification for the variation/alteration —

The Company management wants to have additional funds available for any future inorganic growth initiatives. The funds originally allocated for this purpose are likely to be insufficient for any sizable and serious acquisition(s). Hence, as and when needed for an identified acquisition, the company should be able to utilize for this purpose the funds originally earmarked for

. Effect of the proposed variation/alteration on the financial position including earnings and cash flow of the Company-After the above utilization of the IPO proceeds, the consolidated earnings, margins and cashflow of the Company are expected

to improve in the long term either directly or through its subsidiaries.

. Risk factors pertaining to the new Objects-

We propose to utilize unutilized amount of Rs. 3950.88 Lacs towards the acquisition of businesses in similar or complementary areas for which the targets have not yet been identified. Acquisitions always carry a risk of not delivering the intended outcome

Names of Directors who voted against the proposed variation/alteration-

None of the Directors of the Company have voted against the proposed variation.

Any interested person may obtain the copy of the special resolution along with the explanatory statement free of charge at the registered office of the company or at the office of its Company Secretary Ms. Kanak Gupta at kagupta@alletec.com or visit the website of the Company https://www.alletec.com/investors-alletec for a copy of the same.

By order of the Board of Directors **All E Technologies Limited**

September 02, 2024

Ajay Mian **Managing Director** DIN No. 00170270

Ohio, U.S.A.